

## Contents

परिवार को ढूँढना और संपर्क करना .....	3
स्वयं की सहायता करना .....	5
मुझे स्वयं के बारे में सहायता चाहिए .....	5
अन्य सेवाओं से संपर्क करना .....	6
क्या अन्य समर्थन सेवाएँ मेरी स्थिति को समझेंगी? .....	6
संबंध .....	8
छोटी सी अनुदान फंडिंग .....	9

हम बचपन के सदमे के दीर्घकालिक प्रभावों की पहचान करते हैं।

हम समझते हैं कि आपके बच्चे आपसे छिन जाना कितना मुश्किल भरा हो सकता है।

यदि आप जबरदस्ती गोद लेने से प्रभावित हैं, तो हमारी मुफ्त और गोपनीय समर्थन सेवा सहायता कर सकती है।

हम माताओं, पिताओं, गोद लिए व्यक्तियों और अन्य प्रभावित पारिवारिक सदस्यों का समर्थन करते हैं।

हमारी जबरदस्ती गोद समर्थन सेवा निम्न चीजें प्रदान करती है:

- परामर्श और भावनात्मक समर्थन
- सामुदायिक सेवाओं के बारे में जानकारी और संदर्भ
- गोद-संबंधित समस्याओं के लिए सलाह और समर्थन
- इस बारे में समर्थन कि रिकॉर्ड्स और परिवार के सदस्यों की खोज कैसे करनी है।

हम आपकी आवश्यकताओं को समझने और इस बारे में चर्चा करने के बारे में आपसे शुरुआती वार्तालाप करने के लिए बहुत ज़्यादा खुश हैं कि हमारी सेवा आपका कैसे समर्थन कर सकती है।

सहायता कर्मचारियों की हमारी टीम योग्य और अनुभवी पेशेवर सामाजिक कर्मचारियों और परामर्शदाताओं से बनी है, जिनके पास जबरदस्ती गोद लेने और इसके प्रभावों से संबंधित मुद्दों के बारे में ज्ञान और समझ है।

हम आपसे आपकी स्थिति के बारे में बात कर सकते हैं और सहायक होने वाले समर्थन और सहायता के प्रकारों के बारे में चर्चा कर सकते हैं।

हमारी जबरदस्ती गोद समर्थन सेवा उन परियोजनाओं के लिए [छोटी सी अनुदान फंडिंग](#) भी प्रदान करती है जो जबरदस्ती गोद से प्रभावित लोगों का समर्थन करते हैं और सामर्थ्य को विकसित करते हैं।

### **मैं कैसे शुरुआत करूँ?**

अधिक जानने के लिए, इस बारे में बात करें कि हमारी सेवा आपकी कैसे सहायता कर सकती है या यह कि अपोइंटमेंट कैसे करनी है:

- सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे से शाम के 5 बजे तक हमारे समर्पित नंबर - [1800 21 03 13](tel:1800210313) - को कॉल करें
- ईमेल [fass@rav.org.au](mailto:fass@rav.org.au)

जबरदस्ती गोद समर्थन सेवाएँ ऑस्ट्रेलियाई सरकारी के सामाजिक सेवा के विभाग द्वारा वित्तपोषित हैं।

## परिवार को ढूँढना और संपर्क करना

### मैं मेरे परिवार के बारे में और जानना चाहूँगा

लोग कई कारणों से स्वयं से अलग हो चुके परिवार के सदस्यों को और उनके पारिवारिक इतिहास के बारे में पता लगाने का निर्णय लेते हैं। एक खोज शुरू करने से पहले, कई लोगों को उनके कारणों, उम्मीदों और भावनाओं के बारे में बात करना सहायक लगता है।

आप परिवार के सदस्यों को खोजने के बारे में चर्चा करने के लिए हमसे [1800 21 03 13](tel:1800210313) पर कॉल कर सकते हैं या [fass@rav.org.au](mailto:fass@rav.org.au) पर ईमेल कर सकते हैं

यदि आप किसी परिवार के सदस्य की तलाश कर रहे हैं जिसकी कोई खबर नहीं है लेकिन यह जबरदस्ती गोद नीतियों और अभ्यासों की वजह से नहीं है, तो आप निम्न पर संपर्क कर सकते हैं:

- [1800 779 379](tel:1800779379) पर [ओपन प्लेस](#)
- [VANISH](#) (Victorian Adoption Network for Information और Self Help) [1300 826 474](tel:1300826474) पर

### पहले चरण में गोद रिकॉर्ड प्राप्त करना

विक्टोरिया राज्य सरकार का न्याय और समुदाय सुरक्षा विभाग [गोद जानकारी सेवाएँ \(AIS\)](#) प्रदान करता है ताकि गोद लिए जाने के कारण अलग हुए उन लोगों की सहायता की जा सके जो गोद रिकॉर्ड प्राप्त करना चाहते हैं या एक-दूसरे से संपर्क करना चाहते हैं।

यदि ऐसा करने के लिए पात्र हों, तो आप गोद रिकॉर्डों के लिए AIS को आवेदन कर सकते हैं। इसमें शामिल हो सकता है:

- पूर्व गोद एजेंसियों और अदालतों द्वारा बनाए गए रिकॉर्ड
- गोद लिए व्यक्ति के मूल जन्म प्रमाणपत्र की प्रतियाँ

दि [AIS वेबसाइट](#) में उनकी सेवाओं और उनके संपर्क विवरणों के बारे में जानकारी है।

दि आप किसी अन्य राज्य में रह रहे हैं और समर्थन या जानकारी चाहते हैं तो आप [1800 21 03 13](tel:1800210313) पर अपने राज्य में जबरदस्ती गोद समर्थन सेवाओं से संपर्क कर सकते हैं।

## आधिकारिक रिकॉर्डों की खोज करना

जब आपने एक बार गोद रिकॉर्ड प्राप्त कर लिए हों तो, आप अपने परिवार के सदस्य/सदस्यों के बारे में जानकारी के लिए आधिकारिक रिकॉर्ड ढूँढना शुरू कर सकते हैं (जैसे कि जन्म, मृत्यु और शादियों के रिकॉर्ड और मतदान के रोल)।

लोग अक्सर पाते हैं कि समर्थन के लिए दोस्तों और परिवार को पूछना बहुत अधिक सहायक होता है जब इस खोज के दौरान अनुभव होने वाली भावनात्मक और राजनैतिक समस्याओं के साथ निपटना होता है। विक्टोरिया में, ऐसी माहिर सेवाएँ और साथी समर्थन समूह भी हैं जो सहायता कर सकते हैं।

## एक खोज में कितना समय लगेगा?

जबकि खोज करना एक सीधा काम हो सकता है, लेकिन अक्सर ऐसा नहीं होता है और इसमें काफी अधिक समय लग सकता है - कई माह या इससे भी अधिक समय। रिकॉर्ड अपूर्ण या गलत हो सकते हैं, और परिवार के सदस्यों को ढूँढना मुश्किल हो सकता है क्योंकि शायद उनके नाम बदल चुके हों या शायद वे किसी और राज्य या देश में जा चुके हों।

यदि आप उस व्यक्ति के बारे में वर्तमान जानकारी ढूँढने में सफल होते हैं, जिसके लिए आप खोज कर रहे हैं, तो यह महत्वपूर्ण है कि आप संपर्क करने के तरीके के बारे में ध्यानपूर्वक विचार करने के लिए अपना समय लें।

## पारिवारिक सदस्यों के साथ संपर्क करना

एक बार जब आपकी खोज के कारण उस पारिवारिक सदस्य का संभावित पता मालूम हो गया हो जिससे आप संपर्क करना चाह रहे हैं, तो हम सिफारिश करते हैं कि आप अपने अगले चरणों के बारे में बहुत ध्यान से सोचें।

यह शामिल हर किसी के लिए बहुत भावनात्मक और मुश्किल समय हो सकता है और किसी माहिर सेवा से सलाह और समर्थन लेना बेहतर रहेगा।

यह भी महत्वपूर्ण है कि जिस व्यक्ति के साथ आप संपर्क कर रहे हैं, उसके पास आपके संपर्क अनुरोध और उसकी भावनाओं और उम्मीदों पर प्रक्रिया करने के लिए समय हो। आप शायद अपनी खोज में रीयुनियन के बारे में सोच रहे हों, लेकिन सामने वाले व्यक्ति के लिए संपर्क पूर्ण रूप से अनेपक्षित हो सकता है। इस कारणवश, अक्सर पहली बार संपर्क करने के लिए पत्र का उपयोग किया जाता है, क्योंकि इससे सामने वाले व्यक्ति को अपनी भावनाओं से निपटने और अपनी प्रतिक्रिया पर विचार करने का समय मिलता है।

माहिर सेवाएँ जैसे कि Relationships Australia Victoria, [AIS](#) और [VANISH](#) सभी मुफ्त सहायता और सलाह प्रदान कर सकती हैं और आपकी एक पत्र लिखने में मदद कर सकती हैं।

## गोपनीयता

इस समय के दौरान शामिल सभी लोगों की गोपनीयता का आदर करना महत्वपूर्ण है। विक्टोरिया का गोद कानून लोगों की सहमति के बिना गोद प्रक्रिया में शामिल लोगों के बारे में किसी भी पहचानने योग्य जानकारी के प्रकाशन को प्रतिबंधित करता है। इसमें Facebook जैसे सोशल मीडिया पर नाम लेने या लोगों को टैग करना शामिल है।

## हमसे संपर्क करें

अधिक जानने के लिए, इस बारे में बात करें कि हमारी सेवा आपकी कैसे सहायता कर सकती है या यह कि अपोइंटमेंट कैसे करनी है:

- सोमवार को सुबह 9 बजे से शाम के 5 बजे तक हमारे सर्म्पित नंबर - [1800 21 03 13](tel:1800210313) - को कॉल करें
- ईमेल [fass@rav.org.au](mailto:fass@rav.org.au)

ज़बरदस्ती गोद समर्थन सेवाएँ ऑस्ट्रेलियाई सरकार के सामाजिक सेवाओं के विभाग द्वारा वित्तपोषित हैं।

## स्वयं की सहायता करना

### मुझे स्वयं के बारे में सहायता चाहिए

अपरिहार्य जीवन अनुभवों और कठिनाई का सामना कर चुके कई लोगों को रोज़ाना जीवन के तनावों और चुनौतियों का सामना करना मुश्किल लगता है। कुछ लोगों के लिए, यह प्रभाव उनके साथ जीवन भर रहते हैं – समय हर चोट को ठीक नहीं करता।

पूर्व सदमे की घटनाओं के परिणामस्वरूप कई प्रकार की शारीरिक और भावनात्मक स्वास्थ्य समस्याएँ हो सकती हैं, जिनमें दीर्घकालिक स्वास्थ्य समस्याएँ, क्लेश, व्याकुलता और विषाद, अलगाव, भावनात्मक सुन्नता, सोने में मुश्किल और घनिष्ठता और नए अनुभवों से कतराना शामिल है। यह जानना महत्वपूर्ण है कि यह इस बारे में नहीं है कि उस व्यक्ति के साथ क्या गलत है, यह इस बारे में है कि उसके साथ क्या हुआ है।

यदि आपको लगे कि शारीरिक या स्वास्थ्य समस्याएँ आपको रोज़ाना के जीवन का आनंद लेने में रोक रही हैं, तो हम सिफारिश करते हैं कि आप सहायता माँगे। 'कठोर बनने' और स्वयं से प्रबंधन करने की कोई आवश्यकता नहीं है – किसी ऐसे व्यक्ति से समर्थन चाहना जिस पर आप भरोसा कर सकें, स्वयं की देखभाल करने का सबसे बढ़िया ढंग है। एक विश्वसीय, करीबी दोस्त या पारिवारिक सदस्य के साथ अपनी भावनाओं को साझा करना एक बहुत बड़ी राहत हो सकता है और पेशेवर सहायता चाहना आपके जीवन में बहुत बड़ा अंतर ला सकता है।

आपको किसी ऐसे व्यक्ति के साथ बात करना अधिक आसान लग सकता है जो जबरदस्ती गोद नीतियों और अभ्यासों से प्रभावित लोगों के साथ काम करने में प्रशिक्षित है। यह लोग समझते हैं कि कैसे आपके पूर्व अनुभव आपको प्रभावित कर रहे हो सकते हैं, और इनको एक ऐसे भरोसेमंद, सुरक्षित स्थान का निर्माण करने का महत्व पता है जहाँ आपको अपने स्वास्थ्य के बारे में अपनी गति के अनुसार बात करने का समय मिले और यह आपकी स्वास्थ्य देखभाल के बारे में आपको विकल्प भी प्रदान करेंगे।

कई लोगों को साथी सहायता समूह सहायक लगते हैं। साथी समर्थन समूह क्षेत्रीय केंद्रों और साथ ही साथ मेलबोर्न में भी स्थित हैं और यह हमें एक समर्थित, सुरक्षित स्थान भी प्रदान करते हैं जहाँ समान अनुभव कर चुके लोग खुले ढंग से अपने अनुभव सांझा कर सकते हैं और एक-दूसरे का समर्थन कर सकते हैं।

## मैं कहाँ से शुरुआत करूँ?

हमारी ज़बरदस्ती गोद समर्थन सेवा के साथ बात करना एक अच्छा शुरुआती चरण हो सकता है।

हम आपको उपलब्ध सहायता विकल्पों के बारे में बेहतर समझ पाने में और आपको उचित स्वास्थ्य पेशेवरों या अन्य सेवाओं तक रेफर करने में सहायता कर सकते हैं यदि आप चयन करते हैं।

आप हमारे समर्पित नंबर **1800 21 03 13** पर कॉल कर सकते हैं या हमें [fass@rav.org.au](mailto:fass@rav.org.au) पर कॉल कर सकते हैं

*ज़बरदस्ती गोद समर्थन सेवाएँ ऑस्ट्रेलियाई सरकार के सामाजिक सेवाओं के विभाग द्वारा वित्तपोषित हैं।*

## अन्य सेवाओं से संपर्क करना

### क्या अन्य समर्थन सेवाएँ मेरी स्थिति को समझेंगी?

किसी स्वास्थ्य पेशेवर या अन्य समर्थन सेवा से मिलते समय एक आम चिंता यह होती है कि क्या वह आपके स्वास्थ्य और तंदरुस्ती पर आपके अनुभवों के प्रभावों को समझेंगे या नहीं।

ऐसी सेवाओं की संख्या बढ़ती जा रही है जो जबरदस्ती गोद नीतियों और अभ्यासों के अनुभवों और प्रभाव से जात हैं, और ऑनलाइन प्रशिक्षण, वेबिनारों और लिखित मार्गदर्शिकाओं के सहित उनकी सहायता करने के लिए अधिक संसाधन उपलब्ध हैं।

आप अपने GP या किसी अन्य स्वास्थ्य पेशेवर के पास लिजाने के लिए [इस तथ्य शीट \[PDF, 315KB\]](#) को डाउनलोड कर सकते हैं। इसे ऑस्ट्रेलियाई सरकार के सामाजिक सेवाओं के विभाग द्वारा बनाया गया है और यह जबरदस्ती गोद नीतियों और अभ्यासों के इतिहास, अनुभवों और प्रभावों, प्रभावित लोगों की आवश्यक ज़रूरतों, उचित भाषा और उपलब्ध सहायता के बारे में समझाता है।

हम आपकी सेवा प्रदाताओं के साथ बात-चीत करते समय आपके द्वारा सामना की जाने वाली चिंताओं और मुश्किलों से निपटने

में सहायता करेंगे। हमें [1800 21 03 13](tel:1800210313) पर कॉल करें या [fass@rav.org.au](mailto:fass@rav.org.au) पर ईमेल करें

**मैं ऐसे किसी स्वास्थ्य पेशेवर को कैसे ढूँढूँ जो मेरी स्थिति समझने में मेरी सहायता करेगा?**

किसी की सिफारिश पर प्रासंगिक अनुभव और प्रशिक्षण के साथ स्वास्थ्य प्रेक्टिशनरों को ढूँढना एक अच्छा तरीका है।

हमारी जबरदस्ती गोद समर्थन सेवा और अन्य समर्थन सेवाएँ जैसे कि [VANISH](#) आपके क्षेत्र में स्वास्थ्य पेशेवरों का सुझाव दे पाएँ जिनके पास जबरदस्ती गोद प्रक्रियाओं के साथ संबंधित विशिष्ट प्रशिक्षण है या जिनके पास जबरदस्ती गोद नीतियों और अभ्यासों से प्रभावित लोगों के साथ काम करने का अनुभव है।

**मैं मेरे स्वास्थ्य पेशेवर को क्या पूछ सकता/सकती हूँ?**

यह महत्वपूर्ण है कि आपको सुरक्षित और सुविधाजनक महसूस हो और यह कि आप अपने GP या अन्य स्वास्थ्य पेशेवर या समर्थन सेवा से संपर्क कर सकें।

आप उनके प्रशिक्षण, अनुभव, देखभाल प्रदान करने के ढंग के बारे में प्रश्न पूछ सकते हैं, और साथ ही खर्च और अपोइंटमेंटों जैसी चीजों के बारे में पूछ सकते हैं। यदि वह आपके प्रश्नों का उत्तर देना नहीं चाहते या यदि आपको लगे कि वह आपकी चिंताओं को अधिक गंभीरता से नहीं ले रहे, तो किसी अन्य स्वास्थ्य पेशेवर या सहायता सेवा से संपर्क करने का चयन करें।

**क्या मुझे मेरी कहानी दुबारा बतानी होगी?**

अपनी कहानी को केवल तब सांझा करें जब और यदि आपको लगे कि आप ऐसा करने के लिए तैयार हैं, और केवल एक सुरक्षित स्थान में किसी भरोसेमंद व्यक्ति के साथही ऐसा करें।

अपनी कहानी के विवरण साझे किए बिना बढ़िया गुणवत्ता वाले स्वास्थ्य देखभाल के उत्पाद खरीदना संभव है और सदमे को समझ सकने वाले स्वास्थ्य पेशेवर आपके साथ इस तरह काम करने के सक्षम होंगे।

यदि आपको लगे कि आपको बहुत धकेला जा रहा है, या यदि आप उनके ढंगों के साथ सहज महसूस नहीं करते तो, अपने स्वास्थ्य पेशेवर के साथ अपनी चिंताओं पर चर्चा करने की कोशिश करें। यदि आप अपनी चिंताओं पर चर्चा करने के बाद सहज नहीं महसूस कर रहे हैं, तो किसी अन्य स्वास्थ्य पेशेवर से बात करने पर विचार करें।

याद रखें, आपको इसे अपने ढंग से करने की आवश्यकता नहीं है – आप हमेशा अपोइंटमेंट अटेंड करते समय समर्थन के लिए अपने साथ किसी दोस्त या पारिवारिक सदस्य को लिजा सकते हैं।

दि [ब्लू नॉट फाउंडेशन](#) एक संस्था है जो बाल शोषण के बालग उत्तरजीवियों का समर्थन करती है। उनकी वेबसाइट पर आपके लिए सहायक देखभाल और समर्थन चाहने के बारे में बेहतरीन जानकारी है, चाहे ही आप बाल शोषण के उत्तरजीवी न हों।

जबरदस्ती गोद समर्थन सेवाएँ ऑस्ट्रेलियाई सरकार के सामाजिक सेवाओं के विभाग द्वारा वित्तपोषित हैं।

## संबंध

मुझे संबंधों के बारे में सहायता चाहिए

कई लोग कभी-कभी अपने संबंधों में मुश्किलों का सामना करते हैं और बेहतर ढंग से संचार करना, विवाद से निपटना, अपनी भावनाओं का प्रबंधन करना और अन्य की भावनाओं को समझना सीखने के लिए पेशेवर सहायता चाह रहे होते हैं।

जबरदस्ती गोद संबंधी नीतियों और अभ्यासों से प्रभावित लोगों के किसी सामान्य व्यक्ति की तरह ही संबंधों में समान समस्याएँ और साथ ही साथ अपने पूर्व अनुभवों से संबंधित कुछ समस्याएँ हो सकती हैं। जबरदस्ती गोद से प्रभावित कुछ लोगों के लिए आम संबंध समस्याएँ हैं:

- करीबी संबंधों से कतराना और संबंधों में दूरी कायम रखना
- प्यार छुपाने का प्रयास करना
- यह मानना कि वह प्यार और लगाव के हकदार नहीं हैं
- अन्यों पर अविश्वास
- संबंध की शुरुआत करने या उसे कायम रखने में मुश्किलें
- रीयुनियन के बाद संबंध में अलग-अलग उम्मीदों का प्रबंधन कैसे करना

हमारी सेवा आपको किसी भी संबंध समस्या से निपटने में सहायता कर सकती है। हमारी टीम ऐसे लोगों के साथ काम करने में प्रशिक्षित है जो जबरदस्ती गोद नीतियों और अभ्यासों से प्रभावित हुए हैं। वह समझते हैं कि आपके पूर्व अनुभव आपको और आपके संबंधों को कैसे प्रभावित कर रहे होंगे। वह आपको व्यावहारिक सलाह प्रदान कर सकते हैं, आपके लिए उपलब्ध सहायता की किस्मों को समझा सकते हैं और आपको आपके किसी क्षेत्र के संबंध परामर्शदाता या अन्य योग्य सेवा पर रेफर कर सकते हैं।

हमें [1800 21 03 13](tel:1800210313) पर कॉल करें या [fass@rav.org.au](mailto:fass@rav.org.au) पर ईमेल करें

जबरदस्ती गोद समर्थन सेवाएँ ऑस्ट्रेलियाई सरकार के सामाजिक सेवाओं के विभाग द्वारा वित्तपोषित हैं।

## छोटी सी अनुदान फंडिंग

हम पूर्व जबरदस्ती गोद लेने की नीतियों और अभ्यासों से प्रभावित लोगों का समर्थन करने के लिए परियोजनाओं को निधि देने के लिए अनुदान के लिए आवेदन करने के लिए पात्र समूहों और संस्थानों को आमंत्रित करते हैं।

छोटी अनुदान फंडिंग का उद्देश्य जबरदस्ती गोद लेने की नीतियों और अभ्यासों से प्रभावित लोगों के लिए क्षमता निर्माण और समर्थन बढ़ाना है।

छोटी अनुदान फंडिंग का उपयोग निम्नलिखित सहित कई परियोजनाओं, आयोजनों या गतिविधियों के लिए किया जा सकता है।

- क्षमता निर्माण के अवसर जैसे स्थानीय या राष्ट्रीय प्रशिक्षण।
- स्मारकों का उत्पादन।
- समर्थन और वकालत के लिए स्थान और समूह बैठक के खर्च।
- सुविधाकर्ता और/या प्रतिभागियों के लिए आवास, भोजन और यात्रा सहित रिट्रीट के लिए सुविधा खर्च।
- जबरदस्ती गोद-संबंधित समूह सुविधा खर्च, ऊर्जा सुविधा खर्च के सहित।
- जबरदस्ती गोद लेने से संबंधित समूह चिकित्सा लागत, एक चिकित्सक को शामिल करने की खर्च सहित।

### कौन आवेदन कर सकता है?

आवेदनों को विक्टोरिया में स्थित साथी समर्थन और वकालत समूहों से, और उन संस्थाओं से आमंत्रित किया गया है जो:

- गैर लाभकारी संस्थाओं के लिए नहीं निगमित हैं; या
- अनिगमित साथी समर्थन, वकालत या समुदाय समूह हैं जिनका शुभारम्भ किसी ऐसी अनिगमित संस्था द्वारा किया गया है जिसके अनुकूल उद्देश्य और लक्ष्य हों। (भाग 5 देखें। दिशा-निर्देशों की शुभारम्भ व्यवस्थाएँ)।

### प्रमुख तिथियाँ और समय सीमाएँ

वर्तमान में कोई भी अनुदान चरण नहीं हैं। जब कोई चरण दर खुला होगा तो इस वेबसाइट में तिथियाँ शामिल की जाएँगी।

आपको पाँच कार्यकारी दिनों के अंदर अपने छोटे से अनुदान की एक ईमेल सूचना प्राप्त होगी। यदि आपने कोई सूचना प्राप्त नहीं की, तो कृपया मुझे [1800 21 03 13](tel:1800210313) पर चिकित्सीय सेवाएँ समन्वयक को कॉल करें।

हमारा उद्देश्य है कि हम मूल्यांकन होने के एक सप्ताह के अंदर सूचना प्रदान कर सकें। हाला, यदि किसी भी आवेदक से अतिरिक्त जानकारी चाहिए हो तो, इसे प्रदान करने के लिए केवल एक अन्य हफ्ता ही प्रदान किया जाएगा। यह प्रक्रिया में अनावश्यक देरी से बचने के लिए है।

कृपया अपनी जमा की गई चीजों को बहुत ध्यान से देखें ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी प्रासंगिक और आवश्यक विवरणों की आपूर्ति की जाती है। आपकी जानकारी के लिए, आवेदन दस्तावेज़ के साथ उदाहरणें प्रदान की गई हैं।

कृपया ध्यान दें कि फंडिंग सीमित है और इसे प्रतियोगी आधार पर पुरस्कृत किया जाएगा। [किसी पूर्व छोटी अनुदान से मुक्ति के कारण](#) भी अनुदान प्राप्ति पर निर्भर है।

यदि आप किसी अन्य संस्था, साथी समर्थन समूह, या व्यक्ति को जानते हैं जो अनुदान के लिए आवेदन करना चाह रहे होते हैं, कृपया उन्हें अधिक जानकारी के लिए इस तरफ निर्देशित करें।

## दस्तावेज़

प्रदान किए पत्र के माध्यम से आवेदन दिए जाने चाहिए और छोटी अनुदान दिशा-निर्देशों के अनुसार जमा करवाए जाने चाहिए। कृपया ध्यान दें कि दस्तावेज़ीकरण परिवर्तन के अधीन है।

- [छोटी अनुदान दिशा-निर्देश \[PDF, 234KB\]](#)
- [आवेदन पत्र \[DOCX, 917KB\]](#)

## अधिक जानकारी

जस्टिस कनेक्ट वेबसाइट से शुभारम्भ की जानकारी उपलब्ध है।

- [अन्यों के साथ काम करना](#)
- [शुभारम्भ](#)

## हमसे संपर्क करें

यदि आपके कोई प्रश्न या चिंताएँ हैं, या यदि आपको आवेदन प्रक्रिया में सहायता की आवश्यकता है, तो कृपया Relationships Australia Victoria में चिकित्सीय सेवा समन्वयक से [1800 21 03 13](tel:1800210313) पर संपर्क करें।

*जबरदस्ती गोद समर्थन सेवाएँ ऑस्ट्रेलियाई सरकार के सामाजिक सेवाओं के विभाग द्वारा वित्तपोषित हैं।*

